



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18—दिसम्बर 24, 2010 (अग्रहायण 27, 1932)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18—DECEMBER 24, 2010 (AGRAHAYANA 27, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2010

सं. 693, दिनांक 16 नवम्बर 2010—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री वी रामकुमार को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 10 सितम्बर 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उप वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

टी जोसफ

उप वित्तीय सलाहकार (स्था/मु का)

एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

(स्थाई कमीशन)

सं. 694, दिनांक 16 नवम्बर 2010—राष्ट्रपति, नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी(एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी

दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :—

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख एवं ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

के आर प्रशाद (06002आर), 01 जुलाई 2007/01 दिसम्बर 2008

अमित शर्मा (06059डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007/01 मार्च 2009

अशिश मित्तल (05514एफ), 01 जुलाई 2004/01 अक्टूबर 2005

सी आर चौपू (06244आर), 01 जुलाई 2008/16 सितम्बर 2009

एम चौधरी (06307एच), 01 जुलाई 2008/16 फरवरी 2010

एम कुशवाहा (06222आर), 01 जुलाई 2008/01 मार्च 2010

अंकुश बैनर्जी (06159वाई), 01 जनवरी 2008/01 सितम्बर 2009

सिद्धार्थ राणा (05913एन), 01 जनवरी 2007/01 फरवरी 2008

के परशुरामन (05918जेड), 01 जनवरी 2007/16 फरवरी 2008

रिन्दू बाबू (05911एच), 01 जनवरी 2007/01 मार्च 2008	एच वेनुगोपाल (06168टी), 01 जनवरी 2008/16 अगस्त 2009
वैभव गुप्ता (05915टी), 01 जनवरी 2007/16 मार्च 2008	बी के ठेकेकरा (06147-डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008/16 अक्टूबर 2009
मनीष त्रिपाठी (05923के), 01 जनवरी 2007/16 मई 2008	नीरज कुमार (06143के), 01 जनवरी 2008/01 नवम्बर 2009
सौरभ गांगुली (05943एफ), 01 जनवरी 2007/16 जून 2008	गौरव शुक्ला (06014टी), 01 जुलाई 2007/01 जनवरी 2009
आनन्द टेटरवाल (06122एन), 01 जनवरी 2008/01 जुलाई 2009	सिद्धार्थ संजीव (06039जेड), 01 जुलाई 2007/01 फरवरी 2009
एस जी पिल्लै (06164एच), 01 जनवरी 2008/01 नवम्बर 2009	आर निर्मल कुमार (06054एच), 01 जुलाई 2007/16 अप्रैल 2009
विकास दहिया (05578ए), 01 जनवरी 2005/16 मार्च 2006	एम सी चन्दीप (06062ए), 01 जुलाई 2007/16 नवम्बर 2008
एस जी नायर (06029ए), 01 जुलाई 2007/01 दिसम्बर 2008	भूपिन्द्र गोयल (05983वाई), 01 जुलाई 2007/01 अगस्त 2008
अलोक गौरव (06259जेड), 01 जुलाई 2008/01 नवम्बर 2009	राजासेकर अम्मासी (05985ए), 01 जुलाई 2007/16 अगस्त 2008
पी के नेहरा (05643जेड), 01 जुलाई 2005/16 अगस्त 2006	अजीत ए (06011के), 01 जुलाई 2007/01 जनवरी 2009
अनिकेत भडे (06233आर), 01 जुलाई 2008/16 जुलाई 2009	रमेश नायर (06041बी), 01 जुलाई 2007/16 मार्च 2009
सौरभ बैनर्जी (06240एफ), 01 जुलाई 2008/01 सितम्बर 2009	विवेकानन्द मिश्रा (05854बी), 01 जुलाई 2006/01 मार्च 2008
सिद्धार्थ चौधरी (06285एच), 01 जुलाई 2008/01 अप्रैल 2010	अमित कुमार सिंह (05989के), 01 जुलाई 2007/01 सितम्बर 2008
जी एम पुजारी (06313वाई), 01 जुलाई 2008/01 अप्रैल 2010	प्रदीप राजा (05991आर), 01 जुलाई 2007/16 सितम्बर 2008
एम रविशंकर (06166एन), 01 जनवरी 2008/16 सितम्बर 2009	निशान्त चन्द्रयान (05996ए), 01 जुलाई 2007/16 दिसम्बर 2008
नितिन मल्होत्रा (06260ए), 01 जुलाई 2008/16 दिसम्बर 2009	अनुराग गांगुली (05999एच), 01 जुलाई 2007/16 नवम्बर 2008
नवीन एहलावत (05646एफ), 01 जुलाई 2005/01 दिसम्बर 2006	मनीश मुन्धरा (06000के), 01 जुलाई 2007/01 अक्टूबर 2008
वी कुरियाकोज (06156आर), 01 जनवरी 2008/01 अगस्त 2009	अनुराग अवस्थी (06013आर), 01 जुलाई 2007/01 मई 2009
राजीव सलाम (06001एन), 01 जुलाई 2007/01 फरवरी 2009	पीयूष कुमार (06015डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007/16 जुलाई 2008
अर्जुन शेखर (06271ए), 01 जुलाई 2008/16 जनवरी 2010	अमित सुभ्रो बैनर्जी (06026डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007/16 अक्टूबर 2008
वी एस प्रसाद (06312डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008/01 अप्रैल 2010	अमरेश कुमार दास (06034एन), 01 जुलाई 2007/16 जनवरी 2009
निलेश अथरे (06171जेड), 01 जनवरी 2008/01 अप्रैल 2009	जगमेद सिंह (06056एन), 01 जुलाई 2007/01 अप्रैल 2009
सौरभ कुमार (06012एन), 01 जुलाई 2007/16 मार्च 2009	सी प्रवीन थॉमस (05853ए), 01 जुलाई 2006/01 फरवरी 2008
कुतुहल यू लिमाये (06256टी), 01 जुलाई 2008/01 जुलाई 2009	ब्रिजेश मिश्रा (06006जेड), 01 जुलाई 2007/01 जनवरी 2009
कुणाल किशोर (06276एन), 01 जुलाई 2008/01 अप्रैल 2010	अभिषेक कुमार (06024टी), 01 जुलाई 2007/16 अक्टूबर 2008
ए ए कुलकर्णी (06252एच), 01 जुलाई 2008/16 सितम्बर 2009	ओम रमेश महेशकर (05922एच), 01 जुलाई 2007/16 मई 2008
वेद प्रकाश (06208एच), 01 जुलाई 2008/16 जनवरी 2010	आकाशदीप (05833एफ), 01 जुलाई 2006/01 जून 2008
जे बेनीवाल (06214वाई), 01 जुलाई 2008/16 मार्च 2010	गगन गौरव रट्टरी (06036टी), 01 जुलाई 2007/01 दिसम्बर 2008
शशांक साठे (06124टी), 01 जनवरी 2008/01 मई 2009	मोदित सोनी (05625एच), 01 जुलाई 2005/01 अगस्त 2006
पंकज यादव (06127जेड), 01 जनवरी 2008/01 जून 2009	ए के जीना (05446ए), 01 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2005
अयूष झूगर (06123एफ), 01 जनवरी 2008/01 अगस्त 2009	

निशान्त चतुर्वेदी (06152एफ), 01 जनवरी 2008/16 जनवरी 2009
 आर के जैन (05934के), 01 जनवरी 2007/16 मार्च 2008
 विशाल नायर (05927डब्ल्यू), 01 जनवरी 2007/01 अक्टूबर 2008
 वेंकटरमण बाबूजी (06009एफ), 01 जुलाई 2007/01 अक्टूबर 2008
 गोपीनाथ नारायणन (06047टी), 01 जुलाई 2007/16 दिसम्बर 2008
 रामभरत जोनालगडा (06057आर), 01 जुलाई 2007/01 फरवरी 2009
 राजन चिब (06016वाई), 01 जुलाई 2007/01 अक्टूबर 2008
 फेबियो जोसफ (06055के), 01 जुलाई 2007/01 मार्च 2009
 गोविन्द सिंह राठौर (06037डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007/01 नवम्बर 2008
 विकास आनन्द (05838टी), 01 जुलाई 2006/01 नवम्बर 2007
 अविनाश रूट (05924एन), 01 जनवरी 2007/01 जुलाई 2008
 अजय कुमार (05940जेड), 01 जनवरी 2007/16 जुलाई 2008
 दीपक कुमार (06019बी), 01 जुलाई 2007/01 जुलाई 2008
 राहुल पटनायक (06030बी), 01 जुलाई 2007/01 नवम्बर 2008
 सिद्धार्थ रावत (06008बी), 01 जुलाई 2007/01 जनवरी 2009
 कार्तिक शर्मा (05906वाई), 01 जनवरी 2007/16 जनवरी 2008
 विक्टर के पॉल (05852जेड), 01 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2008
 लिबु राज (05935एन), 01 जनवरी 2007/01 मार्च 2008
 नितिन शर्मा (06017जेड), 01 जुलाई 2007/01 जुलाई 2008
 विश्वेश्वर प्रधान (05992टी), 01 जुलाई 2007/16 जुलाई 2008
 विजय झा (06035आर), 01 जुलाई 2007/16 सितम्बर 2008
 प्रशान्त होनशेट्टी (06032एच), 01 जुलाई 2007/01 नवम्बर 2008
 अश्विन भोगे (06027वाई), 01 जुलाई 2007/01 दिसम्बर 2008
 हर्षा घटनटी (06031एफ), 01 जुलाई 2007/16 दिसम्बर 2008
 दीपेन्द्रा सिसोदिया (06050जेड), 01 जुलाई 2007/16 मार्च 2009
 विश्वाजीत कुमार (06038वाई), 01 जुलाई 2007/01 जनवरी 2009
 जे एस चौहान (05914आर), 01 जनवरी 2007/16 मार्च 2008
 एन पी के मध्यास्ता (05986बी), 01 जुलाई 2007/16 जुलाई 2008
 भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005

के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

दीपान्धु बूरा (05811एफ), 01 जुलाई 2006/16 अगस्त 2007
 पी आर आर धरमूल (05812एच), 01 जुलाई 2006/16 अक्टूबर 2007
 वाई प्रमोद (05814एन), 01 जुलाई 2006/16 अगस्त 2007
 अश्विन पदियार (05815आर), 01 जुलाई 2006/01 जनवरी 2008
 ओ के केलकर (05817डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006/16 जनवरी 2008
 आर के सिंह (05818वाई), 01 जुलाई 2006/01 मार्च 2008
 शेशार पुरी रामाकृष्णा (05819जेड), 01 जुलाई 2006/16 अप्रैल 2008
 अभिशेष सी डोक (05820ए), 01 जुलाई 2006/01 जनवरी 2008
 अमित कुमार सिंह (05822एफ), 01 जुलाई 2006/01 जनवरी 2008
 सुनील सुमन पतजोशी (05824के), 01 जुलाई 2006/16 जनवरी 2008
 संग्राम के बेरीशेल्या (05826एफ), 01 जुलाई 2006/16 फरवरी 2008
 विनय कुमार त्रिपाठी (05827टी), 01 जुलाई 2006/16 फरवरी 2008
 रंजीव रंजन (05829वाई), 01 जुलाई 2006/01 फरवरी 2008
 दीपक सूद (05832बी), 01 जुलाई 2006/16 जनवरी 2008
 प्रशान्त शान्डील्या (05834एच), 01 जुलाई 2006/01 जून 2008
 राजाबाबू शर्मा (05835के), 01 जुलाई 2006/09 मार्च 2008
 कण्डूकुरी श्याम किरण (05841जेड), 01 जुलाई 2006/01 मार्च 2008
 अन्दिथान कुण्डी तिलक (05844एफ), 01 जुलाई 2006/16 जनवरी 2008
 प्रतीक सिंह (05846के), 01 जुलाई 2006/16 फरवरी 2008
 शरण पाल सिंह (05849टी), 01 जुलाई 2006/16 अप्रैल 2008
 प्रभात आर मिश्रा (05850डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006/01 दिसम्बर 2007
 राजेश्वर कुमार शर्मा (05855एफ), 01 जुलाई 2006/16 अक्टूबर 2007
 आदित्या जवालीकर (05857के), 01 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2008

मौहमद वाहीदुल्लाह (05859एफ), 01 जुलाई 2006/16 मार्च 2008
साइरिल आई स्पीचली (05862वाई), 01 जुलाई 2006/16 मई 2008

अरूण विजय कुमार (05864ए), 01 जुलाई 2006/01 मई 2008

डीजीएन संख्या जे ओ/94 दिनांक 20 फरवरी 2008, 11 मार्च 2008, 26 मार्च 2008, 02 अप्रैल 2008, 21 अप्रैल 2008, 06 मई 2008, 02 जून 2008, 18 जून 2008, 19 जून 2008, 19 जून 2008, 25 जून 2008, 26 जून 2008, 02 जुलाई 2008, 21 जुलाई 2008, 23 जुलाई 2008 और 17 अक्टूबर 2008 निरस्त किये गये।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

राम भरत जोनालागड्डा (06057आर), 01 जुलाई 2007/01 मार्च 2009

क्रम (सी) डी जी एन संख्या जे ओ/94 दिनांक 04 अगस्त 09 निरस्त किए गये।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

पी फनीन्द्रा (05614एच), 01 जुलाई 2005/16 सितम्बर 2006

क्रम 14 डी जी एन संख्या जे ओ/94 दिनांक 17 मार्च 2009 निरस्त किए गये।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

अलोक मनी तिवारी (05596टी), 01 जुलाई 2005/01 अक्टूबर 2006

अनीश मैथ्यू (05598वाई), 01 जुलाई 2005/16 जनवरी 2007

अनूप शर्मा (05599जेड), 01 जुलाई 2005/16 जुलाई 2006

दीपिक धनकर (05600ए), 01 जुलाई 2005/01 नवम्बर 2006

मौ. अशर जिया (05601बी), 01 जुलाई 2005/01 नवम्बर 2006

अन्शुल शर्मा (05602एफ), 01 जुलाई 2005/01 सितम्बर 2006

अभिशेक प्रसाद (05603एच), 01 जुलाई 2005/01 सितम्बर 2006

जयवंत इन्दालाकर (05604के), 01 जुलाई 2005/16 सितम्बर 2006

रोहित काटजू (05606आर), 01 जुलाई 2005/01 दिसम्बर 2006

अश्विनी कुमार (05607टी), 01 जुलाई 2005/01 जनवरी 2007

राहुल भट्ट (05608डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005/01 अक्टूबर 2006

इन्द्र कुमार सिंह (05610जेड), 01 जुलाई 2005/01 दिसम्बर 2006

एन बी एस पी कुमार (05611ए), 01 जुलाई 2005/01 नवम्बर 2006

पी फनीन्द्रा (05614एच), 01 जुलाई 2005/17 सितम्बर 2006

अर्जित पाण्डे (05615के), 01 जुलाई 2005/01 जनवरी 2007

आर चक्रावर्ती (05616एन), 01 जुलाई 2005/01 मई 2007

रविन्द्र सिंह सहारन (05618टी), 01 जुलाई 2005/16 नवम्बर 2006

अमित कुमार (05619डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005/16 नवम्बर 2006

श्रीकान्त वेनुगोपाल (05620वाई), 01 जुलाई 2005/16 अप्रैल 2007

अपूर्व घोष (05621जेड), 01 जुलाई 2005/01 जून 2007

राहुल नागल (05624एफ), 01 जुलाई 2005/16 जुलाई 2006

आसिफ इकबाल (05626के), 01 जुलाई 2005/01 अगस्त 2006

वाई के बदोतिया (05627एन), 01 जुलाई 2005/16 सितम्बर 2006

सुमन सौरभ शर्मा (05628आर), 01 जुलाई 2005/16 अक्टूबर 2006

प्रणव आनन्द (05630डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005/16 जनवरी 2007

बृज किशोर (05631वाई), 01 जुलाई 2005/16 अगस्त 2006

गोविन्द यदोवन्शी (05633टी), 01 जुलाई 2005/01 सितम्बर 2006

अंकुर खन्डेलवाल (05634बी), 01 जुलाई 2005/01 जनवरी 2007

रोहित (05636एच), 01 जुलाई 2005/16 फरवरी 2007

योगेश दहिया (05638एन), 01 जुलाई 2005/01 दिसम्बर 2006

कुलवीर सिंह खत्री (05639आर), 01 जुलाई 2005/16 जनवरी 2007

ए के साख्यान (05640टी), 01 जुलाई 2005/16 नवम्बर 2006

दीपक नागर (05641डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005/01 दिसम्बर 2006

पंचाल बरूआ (05642वाई), 01 जुलाई 2005/01 दिसम्बर 2006

विनीत अलेक्सैन्डर (05645बी), 01 जुलाई 2005/16 जनवरी 2007

अभिनव हान्डा (05647एच), 01 जुलाई 2005/01 मार्च 2007

विनय तिवारी (05649एन), 01 जुलाई 2005/16 मार्च 2007

मेलकावेरी के अश्विन (05650आर), 01 जुलाई 2005/16 अप्रैल 2007

डी जी एन संख्या जे ओ/94 दिनांक 04, 09, 17 एवं 27 जुलाई 2007, 01, 06, 10 अगस्त 2007, 08 अक्टूबर 2007, 18 दिसम्बर 2007, 18 फरवरी 2008, 25 एवं 25 मार्च 2008 निरस्त किये गए।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

रोहित गौतम (05718डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006/01 अप्रैल 2007

पी आर अर्जुन राव (05719वाई), 01 जनवरी 2006/16 अप्रैल 2007

अनूप गोविन्दन (05721ए), 01 जनवरी 2006/16 अप्रैल 2007

भास्कर जोशी (05722बी), 01 जनवरी 2006/01 अप्रैल 2007

नवीन रेन्ज (05725के), 01 जनवरी 2006/01 जुलाई 2007

प्रवीन कुमार (05726एन), 01 जनवरी 2006/16 मार्च 2007

एस एस चूण्डावत (05727एफ), 01 जनवरी 2006/16 मई 2007

अंकुर पंवार (05728टी), 01 जनवरी 2006/01 जुलाई 2007

गौरव कुनाल (05729डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006/01 जुलाई 2007

धर्मवीर ठाकुर (05730वाई), 01 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2007

अतुल पिल्ले (05731जेड), 01 जनवरी 2006/16 सितम्बर 2007

रितेश संधू (05735एच), 01 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2007

वी एस लोहाकरे (05736के), 01 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2007

अंकुश व्यास (05737एन), 01 जनवरी 2006/01 अगस्त 2007

एम पी एस हुडा (05743ए), 01 जनवरी 2006/01 अगस्त 2007

रेनर अम्बर (05744बी), 01 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2007

महावीर किरन आर्या (05745एफ), 01 जनवरी 2006/01 मार्च 2007

मौ. सुहेल खान (05746एच), 01 जनवरी 2006/01 मार्च 2007

रूद्रजीत भट्टाचार्या (05747के), 01 जनवरी 2006/16 जून 2007

तरुण शर्मा (05748एन), 01 जनवरी 2006/01 अगस्त 2007

अलोक कुमार (05751डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006/01 फरवरी 2007

अरूण रॉय (05752वाई), 01 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2007

के ज़िम्मी चाको (05753जेड), 01 जनवरी 2006/16 मई 2007

सार्थ कमल रेड्डी (05755बी), 01 जनवरी 2006/01 मई 2007

तरुण शर्मा (05757एच), 01 जनवरी 2006/01 अगस्त 2007

रथीश रामाचन्द्रन (05760आर), 01 जनवरी 2006/16 नवम्बर 2007

रन्डीप गोष (05761टी), 01 जनवरी 2006/16 मई 2007

डी जी एन संख्या जे ओ/94 दिनांक 22 अक्टूबर 2007, 31 अक्टूबर 2007, 05 नवम्बर 2007, 07 नवम्बर 2007, 16 नवम्बर 2007, 07 दिसम्बर 2007, 28 जनवरी 2008, 06 फरवरी 2008, 07 फरवरी 2008, 11 फरवरी 2008, 02 अप्रैल 2008, 08 अप्रैल 2008, 05 जून 2008 एवं 04 जुलाई 2008 निरस्त किए गये।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

प्रशान्त भट्ट (06005वाई), 01 जुलाई 2007/01 अप्रैल 2009

इस अधिकारी को सरसरी तौर पर जांच के द्वारा 51 एवं 68 की नेवी एक्ट 1957 के अंतर्गत दो दिन का अर्थदण्ड (वेतन भत्ता) अर्थात् हैडक्वार्टर एस एन सी सिग्नल डी टी जी 241602/दिसम्बर 2008 सब लेफ्टिनेन्ट पद पर।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

के के जगदीप (05694आर), 10 जनवरी 2005/25 दिसम्बर 2006

प्रकाश सेकर (05781एन), 11 जुलाई 2005/11 अप्रैल 2007

फिरोजबाबू ए अब्दुलजीज (05873वाई), 10 जुलाई 2006/10 जून 2008

जे ए शाह (05866एफ), 10 जुलाई 2006/25 जून 2008

इन्द्रजीत सिंह (05871टी), 10 जुलाई 2006/25 मार्च 2008

एस के वर्मा (05690एफ), 10 जनवरी 2005/25 सितम्बर 2006

अंशुमान बेहेरा (05802के), 09 जनवरी 2006/09 नवम्बर 2007

विनोद आनन्द (05779एच), 11 जुलाई 2005/26 मई 2007

मुथू कुमार अलगसान (05783टी), 11 जुलाई 2005/26 अप्रैल 2007

सचिन शर्मा (05778एच), 10 जुलाई 2006/10 जुलाई 2008

विक्रान्त श्रीवास्तव (05872डब्ल्यू), 10 जुलाई 2006/10 जून 2008

मण्डाक प्रशान्त तानाजी (05806डब्ल्यू), 09 जनवरी 2006/09 नवम्बर 2007

शेखर हेम कुमार नायडू (05785वाई), 11 जुलाई 2005/11 जून 2007

गौरव कुमार (05796वाई), 09 जनवरी 2006/24 दिसम्बर 2007

जी जॉन लिविंगस्टोन (05493एच), 12 जनवरी 2004/12 जनवरी 2006

के सेन्थील कुमार (05498डब्ल्यू), 12 जनवरी 2004/27 सितम्बर 2005

अभिषेक पाठक (05778एफ), 11 जुलाई 2005/11 नवम्बर 2006

विनायक के पाटिल (05490ए), 12 जनवरी 2004/27 दिसम्बर 2005

सी एस जयामोहन (05804आर), 09 जनवरी 2006/09 नवम्बर 2007

अजीत कुमार पर्व (05789एफ), 11 जुलाई 2005/26 जनवरी 2007

सिनाज मनी (05868के), 10 जुलाई 2006/10 जुलाई 2008

दीपक उल्लोगड़ी (05801एच), 09 जनवरी 2006/24 अक्टूबर 2007

विनीत बेवटरा (05780के), 11 जुलाई 2005/26 फरवरी 2007

एम प्रवीण कुमार (05782आर), 11 जुलाई 2005/26 मई 2007

एम फिरोज (05865बी), 10 जुलाई 2006/25 जून 2008

एस के गुप्ता (05790एच), 11 जुलाई 2005/26 मई 2007

जी एच अईयर (05963ए), 08 जनवरी 2007/23 जून 2008

अभिषेक तिवारी (05967के), 20 जनवरी 2007/05 अक्टूबर 2008

जे विलिंगडन (05958आर), 08 जनवरी 2007/23 नवम्बर 2008

बी आर नायक (05798ए), 09 जनवरी 2006/24 दिसम्बर 2007

अनुभव लाल (05955एच), 08 जनवरी 2007/08 सितम्बर 2008

ए मथीवनान (05974ए), 22 जनवरी 2007/22 अगस्त 2008

राजू संकर (05703के), 10 जनवरी 2005/25 अगस्त 2006

एस मधु (05699ए), 10 जनवरी 2005/25 अक्टूबर 2006

जी एम सावंत (05952ए), 08 जनवरी 2007/23 जुलाई 2008

बी सिद्धार्थ (06075एफ), 09 जुलाई 2007/09 दिसम्बर 2008

यू एस तखेलाम्बरम (05962जेड), 08 जनवरी 2007/23 अगस्त 2008

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

कपिल सांगवान (05665जेड), 12 जुलाई 2004/12 दिसम्बर 2005

नितिन कुलश्रेष्ठा (05667बी), 12 जुलाई 2004/27 जनवरी 2006

प्रीत मोहिन्द्र सिंह (05668एफ), 12 जुलाई 2004/27 जनवरी 2006

अशोक कुमार चेला सामी (05670के), 12 जुलाई 2004/12 जून 2006

रमेश मुनी सामी (05672आर), 12 जुलाई 2004/12 सितम्बर 2005

राघव एस आर बचुबीरा (05673टी), 12 जुलाई 2004/12 जनवरी 2006

राजा कुमार सथापन (05674डब्ल्यू), 12 जुलाई 2004/12 फरवरी 2006

मलिक नैयर (05675वाई), 12 जुलाई 2004/12 मार्च 2006

रचित बाली (05676जेड), 12 जुलाई 2004/12 जनवरी 2006

विनोद शशीधरन (05677ए), 12 जुलाई 2004/12 जनवरी 2006

सुनील नंजुनडप्पा (05678बी), 12 जुलाई 2004/12 सितम्बर 2005

सतीशकुमार सीनुवसार (05679एफ), 12 जुलाई 2004/12 नवम्बर 2005

मोहित कुमार तौमर (05680एच), 12 जुलाई 2004/12 जुलाई 2006

नेलीकुंज निशान्त (05682एन), 12 जुलाई 2004/27 जनवरी 2006

मधुसुदनन रामाचन्द्रन (05683आर), 18 जुलाई 2004/03 मार्च 2006

नवीन विथ्या संकर (05685डब्ल्यू), 17 जुलाई 2004/17 फरवरी 2006

डी जी एन संख्या जे ओ/94 दिनांक 27 अगस्त 2007, 04 अक्टूबर 2007, 12 अक्टूबर 2007, 19 फरवरी 2008, 27 मार्च 2008, 07 अप्रैल 2008, 08 जुलाई 2008, 01 अगस्त 2008 एवं 12 अगस्त 2008 उपरोक्त अधिकारी निरस्त किए गए।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

सुनील नंजुण्डप्पा (05678बी), 12 जुलाई 2004/27 अगस्त 2005

नवीन विथ्या संकर (05685डब्ल्यू), 17 जुलाई 2004/02 फरवरी 2006

डी जी एन संख्या जे ओ/94 दिनांक 27 अगस्त 2007, 30 अक्टूबर 2007, 12 अगस्त 2008 एवं 23 मार्च 2009 उपरोक्त अधिकारी निरस्त किए गए।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

रघुराम एन (05491बी), 12 जनवरी 2004/12 दिसम्बर 2005

अश्विनी कुमार यादव (05492एफ), 12 जनवरी 2004/12 मई 2005

नीरज सोनी (05497टी), 15 जनवरी 2004/15 नवम्बर 2005

डी जी एन संख्या जे ओ/94 दिनांक 27 जुलाई 2007 एवं 11 सितम्बर 2007 निरस्त किये गए।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले की ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

प्रकाश रिचर्ड (05686वाई), 10 जनवरी 2005/25 दिसम्बर 2006

नेयोरेम बौधाजित सिंह (05691एच), 10 जनवरी 2005/25 नवम्बर 2006

कुन्दन (05693एन), 10 जनवरी 2005/25 अक्टूबर 2006

एस रवी रमन (05696डब्ल्यू), 10 जनवरी 2005/25 नवम्बर 2006

बी मोहन कुमार (05697वाई), 10 जनवरी 2005/10 सितम्बर 2006

चेतन जनार्दन (05700बी), 10 जनवरी 2005/25 जुलाई 2006

ओंकार प्रशाद पटनायक (05702एच), 10 जनवरी 2005/25 नवम्बर 2006

डी जी एन संख्या जे ओ/94 दिनांक 23 जनवरी 2008, 19 फरवरी 2008, 27 फरवरी 2008, 07 अप्रैल 2008, 15 जुलाई 2008 एवं 30 जुलाई 2008 निरस्त किए गए।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

मंदूरी प्रशांत (05499वाई), 12 जनवरी 2004/12 अक्टूबर 2005

इस कार्यालय के डी जी एन संख्या जे ओ/94 दिनांक 03 दिसम्बर 2007 निरस्त किए गए।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

एम विष्णु वर्धन (05704एन), 10 जनवरी 2005/10 सितम्बर 2006

धीरज कुमार (05705आर), 10 जनवरी 2005/25 अक्टूबर 2006

प्रदीप कुमार ब्राल (05706टी), 10 जनवरी 2005/25 दिसम्बर 2006

इस कार्यालय के डी जी एन संख्या जे ओ/94 दिनांक 07 अप्रैल 2008 और 22 जुलाई 2008 निरस्त किए गए।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

वी तवाकरी (05671एन), 17 जुलाई 2004/17 अगस्त 2006

इस अधिकारी को जांचा गया अण्डर सैक्सन 46 के नेवी एक्ट 1957 के अंतर्गत ले पद में एक महीना नुकसान यथार्थ हैडक्वाटर इ एन सी सिग्नल डी टी जी 301805/जून 2008।

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-II/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 एवं आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा में निम्नलिखित सब-ले के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब ले का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख, ले के पद पर पदोन्नति की तारीख

एम के सिंह (05877एफ), 10 जुलाई 2006/10 अगस्त 2008

इस अधिकारी को जांच के दौरान नेवी एक्ट 1957 की धारा 51 में अनुपस्थित छट्टी के बाहर सीनीयोरिटी में तीन माह एवं 09 दिन की वेतन भत्ता जब्ती का अर्थदण्ड दिया गया, यथार्थ हैडक्वार्टर डी टी जी 211716/अप्रैल 2009

जार्ज मैथ्यू
संयुक्त निदेशक (सी एण्ड जे)

सं. 695, दिनांक 16 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

शुद्धि-पत्र

भारत के राजपत्र सं. 610 दिनांक 23 अक्टूबर 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 50 दिनांक 12 दिसम्बर 2009 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक "इन्फैन्ट्री और मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट" के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

सूबेदार मेजर के रैंक में

के स्थान पर

सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-419120एफ) 05 मार्च 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-419120एफ), 05 मई 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

भारत के राजपत्र सं. 19 दिनांक 18 दिसम्बर 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 2 दिनांक 09 जनवरी 2010 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक

"इन्फैन्ट्री और मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट" के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

के स्थान पर

नायब सूबेदार (लिपिक) परस नाथ सिंह (जेसी-420431एफ) 09 अप्रैल 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

नायब सूबेदार (लिपिक) परस नाथ सिंह (जेसी-420231एल), 09 अप्रैल 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

भारत के राजपत्र सं. 65 दिनांक 15 जनवरी 2010 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 07 दिनांक 13 फरवरी 2010 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक "इन्फैन्ट्री और मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट" के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर

नायब सूबेदार रामाचंद्रन पी (जेसी-418937एफ) 01 सितम्बर 2009

पढ़ा जाए

सूबेदार रामाचंद्रन पी (जेसी-418937एफ) 01 सितम्बर 2009

के स्थान पर

नायब सूबेदार बल राज (जेसी-419142ए) 01 सितम्बर 2009

पढ़ा जाए

सूबेदार बल राज (जेसी-419142ए) 01 सितम्बर 2009

जे राय चौधरी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 18th December 2010

No. 693, dated 16th November 2010—The President is pleased to appoint Shri V Ramkumar, CSS as Deputy Financial Adviser in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 10.09.2010, until further orders.

T JOSEPH

Deputy Financial Adviser (Estt./MO)

NAVY BRANCH

(PERMANENT COMMISSION)

SLT To be Lt

No. 694, dated 16th November 2010—The President is pleased to make the undermentioned promotion in the Executive Branch of the Indian Navy under provision of Govt of India Letter No. 4(1)/US(MP)/D (N-II/2004 dated 11 Mar' 2005 and IHQ/MoD (N) Letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar' 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission/Date of Promotion as Lt

KR Prasad (06002R), 01 Jul 2007/01 Dec 2008
 Amit Sharma (06059W), 01 Jul 2007/01 Mar 2009
 Ashish Mittal (05514F), 01 Jul 2004/01 Oct 2005
 CR Chowpoo (06244R), 01 Jul 2008/16 Sep 2009
 M Chaudhary (06307H), 01 Jul 2008/16 Feb 2010
 M Kushwaha (06222R), 01 Jul 2008/01 Mar 2010
 Ankush Banerjee (06159Y), 01 Jan 2008/01 Sep 2009
 Sidharth Rana (05913N), 01 Jan 2007/01 Feb 2008
 K Parashuraman (05918Z), 01 Jan 2007/16 Feb 2008
 Rindu Babu (05911H), 01 Jan 2007/01 Mar 2008
 Vaivabh Gupta (05915T), 01 Jan 2007/16 Mar 2008
 Manish Tripathi (05923K), 01 Jan 2007/16 May 2008
 Saurabh Ganguly (05943F), 01 Jan 2007/16 Jun 2008
 Anand Teterwal (06122N), 01 Jan 2008/01 Jul 2009
 SG Pillai (06164H), 01 Jan 2008/01 Nov 2009
 Vikas Dahiya (05578A), 01 Jan 2005/16 Mar 2006
 SG Nair (06029A), 01 Jul 2007/01 Dec 2008
 Alok Gaurav (06259Z), 01 Jul 2008/01 Nov 2009
 PK Nehra (05643Z), 01 Jul 2005/16 Aug 2006
 Aniket Bhade (06233R), 01 Jul 2008/16 Jul 2009

Saurav Banerjee (06240F), 01 Jul 2008/01 Sep 2009
 Siddharth Chaudhary (06285H), 01 Jul 2008/16 Mar 2010
 GM Pujari (06313Y), 01 Jul 2008/01 Apr 2010
 M Ravishankar (06166N), 01 Jan 2008/16 Sep 2009
 Nitin Malhotra (06260A), 01 Jul 2008/16 Dec 2009
 Naveen Ahlawat (05646F), 01 Jul 2005/01 Dec 2006
 V Kuriakose (06156R), 01 Jan 2008/01 Aug 2009
 Rajib Salam (06001N), 01 Jul 2007/01 Feb 2009
 Arjun Sekhar (06271A), 01 Jul 2008/16 Jan 2010
 VS Prasad (06312W), 01 Jul 2008/01 Apr 2010
 Nilesch Athare (06171Z), 01 Jan 2008/01 Apr 2009
 Saurabh Kumar (06012N), 01 Jul 2007/16 Mar 2009
 Kutuhal U Limaye (06256T), 01 Jul 2008/01 Jul 2009
 Kunal Kishore (06276N), 01 Jul 2008/01 Apr 2010
 AA Kulkarni (06252H), 01 Jul 2008/16 Sep 2009
 Ved Prakash (06208H), 01 Jul 2008/16 Jan 2010
 J Beniwal (06214Y), 01 Jul 2008/16 Mar 2010
 Shahank Sathe (06124T), 01 Jan 2008/01 May 2009
 Pankaj Yadav (06127Z), 01 Jan 2008/01 Jun 2009
 Ayush Dugar (06163F), 01 Jan 2008/01 Aug 2009
 H Venugopal (06168T), 01 Jan 2008/16 Aug 2009
 BK Thekekara (06147W), 01 Jan 2008/16 Oct 2009
 Neeraj Kumar (06143K), 01 Jan 2008/01 Nov 2009
 Gaurav Shukla (06014T), 01 Jul 2007/01 Jan 2009
 Sidharth Sanjeev (06039Z), 01 Jul 2007/01 Feb 2009
 R Nirmal Kumar (06054H), 01 Jul 2007/16 Apr 2009
 MC Chandeeep (06062A), 01 Jul 2007/16 Nov 2008
 Bhupinder Goyal (05983Y), 01 Jul 2007/01 Aug 2008
 Rajasekar Ammasi (05985A), 01 Jul 2007/16 Aug 2008
 Ajith A (06011K), 01 Jul 2007/01 Jan 2009
 Ramesh Nair (06041B), 01 Jul 2007/16 Mar 2009
 Vivekanand Mishra (05854B), 01 Jul 2006/01 Mar 2008
 Amit Kumar Singh (05989K), 01 Jul 2007/01 Sep 2008
 Pradeep Raja (05991R), 01 Jul 2007/16 Sep 2008
 Nishant Chandrayan (05996A), 01 Jul 2007/16 Dec 2008
 Anurag Ganguly (05999H), 01 Jul 2007/16 Nov 2008
 Manish Mundhra (06000K), 01 Jul 2007/01 Oct 2008

Anurag Awasthi (06013R), 01 Jul 2007/01 May 2009	JS Chauhan (05914R), 01 Jan 2007/16 Mar 2008
Peyush Kumar (06015W), 01 Jul 2007/16 Jul 2008	NPK Madhayasta (05986B), 01 Jul 2007/16 Jul 2008
Amit Subhro Banerji (06026W), 01 Jul 2007/16 Oct 2008	Deepanshu Bura (05811F), 01 Jul 2006/16 Aug 2007
Amresh Kumar Das (06034N), 01 Jul 2007/16 Jan 2009	PRR Dharmul (05812H), 01 Jul 2006/16 Oct 2007
Jagmed Singh (06056N), 01 Jul 2007/01 Apr 2009	Y Pramod (05814N), 01 Jul 2006/16 Aug 2007
C Praveen Thomas (05853A), 01 Jul 2006/01 Feb 2008	Ashwin Padiyar (05815R), 01 Jul 2006/01 Jan 2008
Brijesh Mishra (06006Z), 01 Jul 2007/01 Jan 2009	OK Kelkar (05817W), 01 Jul 2006/16 Jan 2008
Abhishek Kumar (06024T), 01 Jul 2007/16 Aug 2008	RK Singh (05818Y), 01 Jul 2006/01 Mar 2008
Om Ramesh Maheshkar (05922H), 01 Jan 2007/16 May 2008	Shesharpuri Ramakrishna (05819Z), 01 Jul 2006/16 Apr 2008
Akashdeep (05833F), 01 Jul 2006/01 Jun 2008	Abhishek C Doke (05820A), 01 Jul 2006/01 Jan 2008
Gagan Gaurav Raturi (06036T), 01 Jul 2007/01 Dec 2008	Amit Kumar Singh (05822F), 01 Jul 2006/01 Jan 2008
Modit Soni (05625H), 01 Jul 2005/01 Aug 2006	Sunil Suman Patjoshi (05824K), 01 Jul 2006/16 Jan 2008
A K Jeena (05446A), 01 Jan 2004/01 Oct 2005	Sangram K Bairishalya (05826F), 01 Jul 2006/16 Feb 2008
Nishant Chaturvedi (06152F), 01 Jan 2008/16 Jan 2009	Vinay Kumar Tripathy (05827T), 01 Jul 2006/16 Feb 2008
RK Jain (05934K), 01 Jan 2007/16 Mar 2008	Ranjeew Ranjan (05829Y), 01 Jul 2006/01 Feb 2008
Vishal Nair (05927W), 01 Jan 2007/01 Oct 2008	Deepak Sood (05832B), 01 Jul 2006/16 Jan 2008
Venkata Raman Babuji (06009F), 01 Jul 2007/01 Oct 2008	Prashant Shandilya (05834H), 01 Jul 2006/01 Jun 2008
Gopinath Narayanan (06047T), 01 Jul 2007/16 Dec 2008	Rajababu Sharma (05835K), 01 Jul 2006/01 Mar 2008
Ram Bharat Jonnalagadda (06057R), 01 Jul 2007/01 Feb 2009	Kandukuri Syam Kiran (05841Z), 01 Jul 2006/01 Mar 2008
Rajan Chib (06016Y), 01 Jul 2007/01 Oct 2008	Andiyan Kundi Tilak (05844F), 01 Jul 2006/16 Jan 2008
Fabio Joseph (06055K), 01 Jul 2007/01 Mar 2009	Pratik Singh (05846K), 01 Jul 2006/16 Feb 2008
Govind Singh Rathore (06037W), 01 Jul 2007/01 Nov 2008	Sharan Pal Singh (05849T), 01 Jul 2006/16 Apr 2008
Vikas Anand (05838T), 01 Jul 2006/01 Nov 2007	Prabhat R Mishra (05850W), 01 Jul 2006/01 Dec 2007
Avinash Rout (05924N), 01 Jan 2007/01 Jul 2008	Rajeshwar Kr Sharma (05855F), 01 Jul 2006/16 Oct 2007
Ajay Kumar (05940Z), 01 Jan 2007/16 Jul 2008	Aditya Jawalikar (05857K), 01 Jul 2006/01 Apr 2008
Deepak Kumar (06019B), 01 Jul 2007/01 Jul 2008	Mohammud Wahidullah (05859F), 01 Jul 2006/16 Mar 2008
Rahul Patnaik (06030B), 01 Jul 2007/01 Nov 2008	Cyril I Speechly (05862Y), 01 Jul 2006/16 May 2008
Siddharth Rawat (06008B), 01 Jul 2007/01 Jan 2009	Arun Vijay Kumaran (05864A), 01 Jul 2006/01 May 2008
Kartik Sharma (05906Y), 01 Jan 2007/16 Jan 2008	(Draft Gazette Notification No. JO/94 dated 20 Feb 2008, 11 Mar 2008, 26 Mar 2008, 02 Apr 2008, 21 Apr 2008, 06 May 2008, 02 Jun 2008, 18 Jun 2008, 19 Jun 2008, 19 Jun 2008, 25 Jun 2008, 26 Jun 2008, 02 Jul 2008, 21 Jul 2008, 23 Jul 2008; and 17 Oct 2008 may be treated as cancelled)
Victor K Paul (05852Z), 01 Jul 2006/01 Apr 2008	Name, Personal No., Date of Commission & Date of Promotion as Lt
Libu Raj (05935N), 01 Jan 2007/01 Mar 2008	Ram Bharat Jonnalagadda (06057R), 01 Jul 2007/01 Mar 2009
Nitin Sharma (06017Z), 01 Jul 2007/01 Jul 2008	Sr. (c) of Draft Gazette Notification No. JO/94 dated 04 Aug 2009 may be treated as cancelled
Bishweshwar Pradhan (05992T), 01 Jul 2007/16 Jul 2008	P Phaneendra (05614H), 01 Jul 2005/16 Sep 2006
Vijay Jha (06035R), 01 Jul 2007/16 Sep 2008	Sr. 14 of Draft Gazette Notification No. JO/94 dated 17 Mar 2009 may be treated as cancelled
Prashant Honshetti (06032H), 01 Jul 2007/01 Nov 2008	
Ashwin Bhoge (06027Y), 01 Jul 2007/01 Dec 2008	
Harsha Ghatnatti (06031F), 01 Jul 2007/16 Dec 2008	
Deependra Sesodia (06050Z), 01 Jul 2007/16 Mar 2009	
Vishwajeet Kumar (06038Y), 01 Jul 2007/01 Jan 2009	

The President is pleased to make the undermentioned promotion in the Executive Branch of the Indian Navy under provisions of Govt. of India Letter No. 4(1)/US(MP)/D(N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MOD(N) Letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of promotion as Lt.

Alok Mani Tiwari (05596T), 01 Jul 2005/01 Oct 2006
 Anish Mathew (05598Y), 01 Jul 2005/16 Jan 2007
 Anoop Sharma (05599Z), 01 Jul 2005/16 Jul 2006
 Deepak Dhanker (05600A), 01 Jul 2005/01 Nov 2006
 Md Ashar Zia (05601B), 01 Jul 2005/01 Nov 2006
 Anshul Sharma (05602F), 01 Jul 2005/01 Sep 2006
 Abhishek Prasad (05603H), 01 Jul 2005/01 Sep 2006
 Jaywant Indalkar (05604K), 01 Jul 2005/16 Sep 2006
 Rohit Kattoju (05606R), 01 Jul 2005/01 Dec 2006
 Ashwini Kumar (05607T), 01 Jul 2005/01 Jan 2007
 Rahul Bhatt (05608W), 01 Jul 2005/01 Oct 2006
 Inder Kumar Singh (05610Z), 01 Jul 2005/01 Dec 2006
 NVSP Kumar (05611A), 01 Jul 2005/01 Nov 2006
 Arjit Pande (05615K), 01 Jul 2005/01 Jan 2007
 R Chakraborti (05616N), 01 Jul 2005/01 May 2007
 Ravinder Singh Saharan (05618T), 01 Jul 2005/16 Nov 2006
 Amit Kumar (05619W), 01 Jul 2005/16 Nov 2006
 Srikant Venugopal (05620Y), 01 Jul 2005/16 Apr 2007
 Apoorv Ghosh (05621Z), 01 Jul 2005/01 Jun 2007
 Rahul Nagal (05624F), 01 Jul 2005/16 July 2006
 Asif Iqbal (05626K), 01 Jul 2005/01 Aug 2006
 YK Badotiya (05627N), 01 Jul 2005/16 Sep 2006
 Suman Saurabh Sharma (05628R), 01 Jul 2005/16 Oct 2006
 Pranab Anand (05630W), 01 Jul 2005/16 Jan 2007
 Braj Kishore (05631Y), 01 Jul 2005/16 Aug 2006
 Govind Yaduvanshi (05633A), 01 Jul 2005/01 Sep 2006
 Ankur Khandelwal (05634B), 01 Jul 2005/01 Jan 2007
 Rohit (05636H), 01 Jul 2005/16 Feb 2007
 Yogesh Dahiya (05638N), 01 Jul 2005/01 Dec 2006
 Kulveer Singh Khatri (05639R), 01 Jul 2005/16 Jan 2007
 AK Sankhyan (05640T), 01 Jul 2005/16 Nov 2006
 Deepak Nagar (05641W), 01 Jul 2005/01 Dec 2006

Panchal Barua (05642Y), 01 Jul 2005/01 Dec 2006

Vineet Alexander (05645B), 01 Jul 2005/16 Jan 2007

Abhinav Handa (05647H), 01 Jul 2005/01 Mar 2007

Vinay Tiwari (05649N), 01 Jul 2005/16 Mar 2007

Melkaveri K Ashwin (05650R), 01 Jul 2005/16 Apr 2007

Draft Gazette Notification No. JO/94 dated 04 Jul 2007, 09 Jul 2007, 17 Jul 2007, 27 Jul 2007, 01 Aug 2007, 06 Aug 2007, 10 Aug 2007, 08 Oct 2007, 18 Dec 2007, 18 Feb 2008, 25 Mar 2008 and 25 Mar 2008 may be treated as cancelled

Rohit Gautam (05718W), 01 Jan 2006/01 Apr 2007

PR Arjun Rao (05719Y), 01 Jan 2006/16 Apr 2007

Anoop Govindan (05721A), 01 Jan 2006/16 Apr 2007

Bhaskar Joshi (05722B), 01 Jan 2006/01 Apr 2007

Naveen Ranj (05725K), 01 Jan 2006/01 Jul 2007

Praveen Kumar (05726N), 01 Jan 2006/16 Mar 2007

SS Choondawat (05727F), 01 Jan 2006/16 May 2007

Ankur Panwar (05728T), 01 Jan 2006/01 Jul 2007

Gaurav Kunal (05729W), 01 Jan 2006/01 Jul 2007

Dharamveer Thakur (05730Y), 01 Jan 2006/01 Oct 2007

Atul Pillai (05731Z), 01 Jan 2006/16 Sep 2007

Ritesh Sandhu (05735H), 01 Jan 2006/01 Oct 2007

BS Lohakare (05736K), 01 Jan 2006/01 Oct 2007

Ankush Vyas (05737N), 01 Jan 2006/01 Aug 2007

MPS Hooda (05743A), 01 Jan 2006/01 Aug 2007

Rainer Ambatt (05744B), 01 Jan 2006/01 Oct 2007

Mahavir Kiran Arya (05745F), 01 Jan 2006/01 Mar 2007

Md Suhail Khan (05746H), 01 Jan 2006/01 Mar 2007

Rudrajit Bhattacharjya (05747K), 01 Jan 2006/16 Jun 2007

Tarun Sharma (05748N), 01 Jan 2006/01 Aug 2007

Alok Kumar (05751W), 01 Jan 2006/01 Feb 2007

Arun Rai (05752Y), 01 Jan 2006/01 Nov 2007

K Jimmy Chacko (05753Z), 01 Jan 2006/16 May 2007

Sarath Kamal Reddy (05755B), 01 Jan 2006/01 May 2007

Tarun Sharma (05757H), 01 Jan 2006/01 Aug 2007

Ratheesh Ramachandran (05760R), 01 Jan 2006/16 Nov 2007

Randip Ghosh (05761T), 01 Jan 2006/16 May 2007

Draft Gazette Notification No. JO/94 dated 22 Oct 2007, 31 Oct 2007, 05 Nov 2007, 07 Nov 2007, 16 Nov 2007, 07 Dec 2007, 28 Jan 2008, 06 Feb 2008, 07 Feb 2008, 11 Feb 2008, 02 Apr 2008, 08 Apr 2008, 05 Jun 2008 and 04 Jul 2008 may be treated as cancelled

Prashant Bhatt (06005Y), 01 Jul 2007/01 Apr 2009*

*The officer was tried summarily u/s 51 & 68 of Navy Act, 1957 and awarded mulcts of pay & allowances for two days vide HQ SNC Signal DTG 241602/Dec 2008 in the rank of S Lt

NAVY BRANCH

(SHORT SERVICE COMMISSION)

SLt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive Branch of the Indian Navy under provisions of Govt. of India Letter No. 4(1)/US(MP)/D(N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MOD(N) Letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of promotion

KK Jagdeep (05694R), 10 Jan 2005/25 Dec 2006

Prakash Sekar (05781N), 11 Jul 2005/11 Apr 2007

Ferozbabu A Abdulazeez (05873Y), 10 Jul 2006/10 Jun 2008

JA Shah (05866F), 10 Jul 2006/25 Jun 2008

Inderjeet Singh (05871T), 10 Jul 2006/25 Mar 2008

SK Verma (05690F), 10 Jan 2005/25 Sep 2006

Anshuman Behera (05802K), 09 Jan 2006/09 Nov 2007

Vinod Ananda (05779H), 11 Jul 2005/26 May 2007

Muthu Kumar Alagesan (05783T), 11 Jul 2005/26 Apr 2007

Sachin Sharma (05878H), 10 Jul 2006/10 Jul 2008

Vikrant Srivastava (05872W), 10 Jul 2006/10 Jun 2008

Mandake Prashant Tanaji (05806W), 09 Jan 2006/09 Nov 2007

Shekhar Hem Kumar Naidu (05785Y), 11 Jul 2005/11 Jun 2007

Gaurav Kumar (05796Y), 09 Jan 2006/24 Dec 2007

G John Livingstone (05493H), 12 Jan 2004/12 Jan 2006

K Senthil Kumar (05498W), 12 Jan 2004/27 Sep 2005

Abhishek Pathak (05778F), 11 Jul 2005/11 Nov 2006

Vinayak K Patil (05490A), 12 Jan 2004/27 Oct 2005

CS Jayamohan (05804R), 09 Jan 2006/09 Nov 2007

Ajit Kumar Parab (05789F), 11 Jul 2005/26 Jan 2007

Sinaj Mani (05868K), 10 Jul 2006/10 Jul 2008

Deepak Ullegaddi (05801H), 09 Jan 2006/24 Oct 2007

Vineet Bewtra (05780K), 11 Jul 2005/26 Feb 2007

M Praveen Kumar (05782R), 11 Jul 2005/26 May 2007

M Firose (05865B), 10 Jul 2006/25 Jun 2008

Slt SK Gupta (05790H), 11 Jul 2005/26 May 2007

GH Iyer (05963A), 08 Jan 2007/23 Jun 2008

Abhishek Tiwari (05967K), 20 Jan 2007/05 Oct 2008

J Vilangadan (05958R), 08 Jan 2007/23 Nov 2008

BR Nayak (05798A), 09 Jan 2006/24 Dec 2007

Anubhav Lal (05955H), 08 Jan 2007/08 Sep 2008

A Mathivanan (05974A), 22 Jan 2007/22 Aug 2008

Raju Sankar (05703K), 10 Jan 2005/25 Aug 2006

S Madhu (05699A), 10 Jan 2005/25 Oct 2006

GM Sawant (05952A), 08 Jan 2007/23 Jul 2008

V Siddarth (06075F), 09 Jul 2007/09 Dec 2008

US Takhellambam (05962Z), 08 Jan 2007/23 Aug 2008

Kapil Sangwan (05665Z), 12 Jul 2004/12 Dec 2005

Nitin Kulshreshtha (05667B), 12 Jul 2004/27 Jan 2006

Preet Mohinder Singh (05668F), 12 Jul 2004/27 Jan 2006

Ashok Kumar Chella Samy (05670K), 12 Jul 2004/12 Jun 2006

Ramesh Muni Samy (05672R), 12 Jul 2004/12 Sep 2005

Raghava SR Bachuveera (05673T), 12 Jul 2004/12 Jan 2006

Raja Kumar Sathappan (05674W), 12 Jul 2004/12 Feb 2006

Malik Nayyar (05675Y), 12 Jul 2004/12 Mar 2006

Rachit Bali (05676Z), 12 Jul 2004/12 Jan 2006

Vinod Sasidharan (05677A), 12 Jul 2004/12 Jan 2006

Satishkumar Seenuvasar (05679F), 12 Jul 2004/12 Nov 2005

Mohit Kumar Tomar (05680H), 12 Jul 2004/12 Jul 2006

Nelikunj Nishanth (05682N), 12 Jul 2004/27 Jan 2006

Madusudanan Ramachandran (05683R), 18 Jul 2004/03 Mar 2006

Naveen Vithya Sankar (05685W), 17 Jul 2004/17 Feb 2006

Draft Gazette Notification No. JO/94 dated 27 Aug 2007, 04 Oct 2007, 12 Oct 2007, 19 Feb 2008, 27 Mar 2008, 07 Apr 2008, 08 Jul 2008, 01 Aug 2008 and 12 Aug 2008 in respect of the above officers may be treated as cancelled.

Sunil Nanjundappa (05678B), 12 Jul 2004/27 Aug 2005

Naveen Vithya Sankar (05685W), 17 Jul 2004/02 Feb 2006

Draft Gazette Notification No. JO/94 dated 27 Aug 2007, 30 Oct 2007, 12 Aug 2008 and 23 Mar 2009 in respect of the above officers may be treated as cancelled.

Raghuram N (05491B), 12 Jan 2004/12 Dec 2005

Ashwini Kumar Yadav (05492F), 12 Jan 2004/12 May 2005

Neeraj Soni (05497T), 15 Jan 2004/15 Nov 2005

Draft Gazette Notification No. JO/94 dated 27 Jul 2007 and 11 Sep 2007 may be treated as cancelled

Name, Personal No., Date of Commission, Seniority gained in months and Date of Promotion as LT

Prakash Richard (05686Y), 10 Jan 2005, 0.5, 25 Dec 2006

Neorem Boddhajit Singh (05691H), 10 Jan 2005, 1.5, 25 Nov 2006

Kundan (05693N), 10 Jan 2005, 2.5, 25 Oct 2006

S Ravi Raman (05696W), 10 Jan 2005, 1.5, 25 Nov 2006

B Mohan Kumar (05697Y), 10 Jan 2005, 4.0, 10 Sep 2006

Chetan Janardhana (05700B), 10 Jan 2005, 5.5, 25 Jul 2006

Onkar Prasad Pattnaik (05702H), 10 Jan 2005, 1.5, 25 Nov 2006

Draft Gazette Notification No. JO/94 dated 23 Jan 2008, 19 Feb 2008, 27 Feb 2008, 07 Apr 2008, 15 Jul 2008 and 30 Jul 2008 in respect of the above officers may be treated as cancelled.

Name, Personal No., Date of Commission/Date of Promotion as LT

Manduri Prashanth (05499Y), 12 Jan 2005, 12 Oct 2005

This office DGN No. JO/94 dated 03 Dec 2007 in respect of the above officer may be treated as cancelled.

Name, Personal No., Date of Commission/Date of Promotion as LT

M Vishnuvardhan (05704N), 10 Jan 2005/10 Sep 2006

Dhiraj Kumar (05705R), 10 Jan 2005/25 Oct 2006

Pradeep Kumar Bral (05706T), 10 Jan 2005/25 Dec 2006

This office DGN No. JO/94 dated 07 Apr 2008 and 22 Jul 2008 in respect of the above officers may be treated as cancelled

Name, Personal No., Date of Commission/Date of Promotion

V Tavakari (05671N), 17 Jul 2004/17 Aug 2006

This officer was tried summarily U/S 46 of Navy Act 1957 and awarded forfeiture of seniority in the rank of Lt for one month vide HQ ENC Signal DTG 301805/ Jun 2008

Name, Personal No., Date of Commission/Date of Promotion

MK Singh (05877F), 10 Jul 2006/10 Aug 2008

This officer was tried summarily U/S 51 of Navy Act 1957 for remaining absent without leave and awarded forfeiture

of seniority for three months and 09 days Mulcts of Pay and Allowances vide HQ ENC Signal DTG 211716/Apr 2009

GEORGE MATHEW
JDOP (C&J)
Dir of Personnel

ARMY BRANCH

No. 695, dated 16 November 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

In the Ministry of Defence Notification No. 610, dated 23 Oct 2009 published in the Gazette of India serial No. 50, dated 12 Dec 2009 under heading "Regular Army" Sub heading "Infantry and The Mechanised Infantry Regiment" below :—

To be Substantive Subedar Major

For

Sub Satbir Singh (JC-419120F), 05 Mar 2009*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Read

Sub Satbir Singh (JC-419120F), 05 May 2009*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

In the Ministry of Defence Notification No. 19, dated 18 Dec 2009 published in the Gazette of India serial No. 02, dated 09 Jan 2010 under heading "Regular Army" Sub heading "Infantry and The Mechanised Infantry Regiment" below :—

To be Subs Sub

For

Nb Sub (Clk) Paras Nath Singh (JC-420431F), 09 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar (Clk) wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Read

Nb Sub (Clk) Paras Nath Singh (JC-420231L), 09 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar (Clk) wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

In the Ministry of Defence Notification No. 65, dated 15 Jan 2010 published in the Gazette of India serial No. 07, dated 13 Feb 2010 under heading “Regular Army” Sub heading “Infantry and The Mechanised Infantry Regiment” below :—

To be Subs Sub

For

Nb Sub (GNR PT) Ramachandran P (JC-418937F), 01 Sep 2009

Read

Sub (GNR PT) Ramachandran P (JC-418937F), 01 Sep 2009

For

Nb Sub (OWAFV) Bal Raj (JC-419142A), 01 Sep 2009

Read

Sub (OWAFV) Bal Raj (JC-419142A), 01 Sep 2009

J ROY CHOWDHARY
Under Secy